



the pioneer

NEW DELHI | WEDNESDAY | SEPTEMBER 9, 2015

Centre had issued a circular to Union Territories wherein they have been directed to recruit 33 per cent women in police forces and similarly participation of women should increase in Central paramilitary forces," he added.

"Among Central Armed

Police Forces (CAPFs), I believe if any force which will be the first to achieve the target of implementing 33 per cent reservation for women, it will be CISE," Singh said. The Home Minister added that in the era of globalisation and liberalisation, the role of CISE, tasked to

A Infrastructure Limited

Regd. Office: Hamirgarh, Distt. - Bhiwara, Rajasthan - 311025

Web : www.aainfrastructure.com, E-mail : lokesh.m@kanoria.org,

CIN No. : L25191RJ1980PLC002077

POSTAL BALLOT NOTICE

Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of Postal Ballot notice alongwith an explanatory statements, Postal Ballot Form and self addressed pre-paid postage envelope on 04th September, 2015 in compliance of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with (Management and Administration) Rules 2014 to all members to seek consent of the members by way of a Special Resolution as per notice dated 14th August, 2015.

Mr. Anil Kumar Somani, Associate Member of the Institute of Company Secretaries of India have been appointed as the "Scrutinizer" for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner.

Members are requested to note that the Postal Ballot Form duly completed and signed should reach the Scrutinizer not later than the close of the working hours on 05th October, 2015. All Postal Ballot Forms received after 05th October, 2015 will be treated as if reply from such members has not been received. A shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required.

Any query connected with the voting by Postal Ballot may be addressed to Company Secretary, Hamirgarh, Distt. - Bhiwara, Rajasthan - 311025, contact No. - 01482 286102, Email - lokesh.m@kanoria.org.

By order of the Board
For A Infrastructure Limited
Sd/-

Place : Bhiwara

Dated : 07th September, 2015

Darvinder Ambardar

Director



MOHIT PAPER MILLS LIMITED

CIN : L21093DL1992PLC116600

Regd. Office: 15A/13, Upper Ground Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008

Telephone: 011-25886798, Telefax: 011-25886797

Email : mohit.paper@rediffmail.com, Website : www.mohitpaper.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the Members of Mohit Paper Mills Limited will be held on 30th day of September, 2015 at 10:00 A.M. at Bharat Banquet Hall, A-5, Naveen Vihar, Rajiv Nagar Extension, Begumpur Main Barwala Road, Delhi-110081

The notice setting out the ordinary and special business to be transacted at the Meeting and the explanatory statement under Section 102 of Companies Act, 2013 attached thereto, together with the Balance Sheet as at March 31, 2015, the Profit & Loss, Cash Flow for the year ended on that date and the Reports of the Auditors and Directors thereon have been sent to the Members at their registered address by courier/post or registered e-mail IDs by electronic mode.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions, if any and Clause 16 of the Listing Agreement, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 26th Day of September to 30th Day of September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to Clause 35B of the Listing Agreement and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with relevant Rules made thereunder, the Company is pleased to provide to its members the facility to exercise their right to vote from a place other than the venue of AGM by electronic means (remote e-voting). The Company has entered in to an arrangement with M/s. Central Depository Services India Limited (CDSL) for facilitating e-voting. The e-voting on the resolutions to be passed at the said AGM of the Company shall begin on 9.00 a.m., Saturday 26th September, 2015 and ends on 5.00 p.m., Tuesday, 29th September, 2015.

The e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 p.m. on Tuesday. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. During this period members of the Company holding shares either in physical form or Dematerialized form, as on the cut-off date of 24th September, 2015, may cast their vote electronically. The instructions for e-voting are given in the aforesaid Notice, and also available on the website evotingindia.com.

OSWAL LEASING LIMITED

CIN : L65910DL1983PLC018036

Regd. Office : 105, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001

Phone : 011-23313955, Fax : 011-23316374, E-mail : oswal_leasing@ownnahaar.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Wednesday, 30th September, 2015 at 11.00 P.M. at the Registered Office of the company i.e. at New Delhi YMCA Tourist Hostel, 1, Jai Singh Road, New Delhi- 110001 transact the business set out in the notice.

The Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip has been sent to all the Members in electronic mode whose E-mail id's are registered with the company. For Members who have not registered their e-mail address, physical copy of the Notice of AGM and Annual Report have been sent in permitted mode.

NOTICE is hereby also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain close from 28th September, 2015 to 30th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Company has extended e-voting facility to its Members, to exercise their right to vote electronically on the Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of CDSL. The EVSN (e voting sequence number) allotted to the company by CDSL is 150902066.

Sr. No.	Particulars	Schedule
1.	Cut-off Date	23 rd September, 2015
2.	Date & time of commencement of voting through electronic means.	27 th September, 2015 (9:00 A.M.)
3.	Date & time of end of voting through electronic means.	28 th September, 2015 (5:00 P.M.)*

*E-voting shall not be allowed beyond the abovementioned date and time.

Any person who acquires share of the company and becomes member of the company after dispatch of notice may obtain the login ID and password from the company. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

A person whose name is recorded in the register of members maintained by Company / CDSL as on cut-off date i.e. 23rd September, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

The Notice of AGM and Annual Report is also available on the website of the Company www.ownnahaar.com.

For any Grievance regarding e-voting, send an email to the company at oswal_leasing@ownnahaar.com and in case of e-voting to CDSL by email at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

For OSWAL LEASING LIMITED

(Sd/-) VIJAY GUPTA, DIRECTOR

PLACE : New Delhi

DATE : 08.09.2015



FCS SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED

(CIN No. L72100DL1993PLC179154)

Registered Office: 205, 2nd Floor, Agrawal Chamber IV, 27, Near

Sawarkar Block, Vikas Marg, Shakerpur, Delhi - 110 092.

Website: www.fcsitd.com; Email: investors@fcsitd.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY given to the members of the Company pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Clause 35B of the Listing Agreement, the company is providing its members facility to exercise their rights to vote on resolutions proposed to be passed in the Annual General Meeting ("meeting") of the Company scheduled to be held on Thursday, 24th day of September, 2015 at 9 A.M. at The Executive Club, 439, Village Sahoorpur, Fatehpur Beri, New Delhi- 110 074. The members may cast their vote using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the agency to provide electronic voting facility. The procedure for e-voting is described in notes to Notice.

The Notice containing details of electronic voting has been dispatched to members. The Notice of the meeting are available on the website of the Company at www.fcsitd.com.

The remote e-voting facility shall commence from Monday, 21st September, 2015 at 9:00 A.M. and ends on Wednesday, 23rd September, 2015 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person whose name appears in the register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Friday, September 18, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, September 18, 2015, may obtain the user ID and password by sending a request at investors@fcsitd.com. The detailed procedure for obtaining the user ID and password is also described in the Notice of the Meeting which is available on the Company's website. If the member is already registered with the CDSL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have already exercised their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The facility for voting through Poll shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not exercised their vote by remote e-voting shall be able to

उनपर ताबड़तोड़ चार गोलीयां चला दी। गोलीबारी करने के बाद हमलावर वहां से भाग गए। इस हमले में घायल चंद्रपाल ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरूआती जांच में पुलिस ने आपसी रंजिश के चलते हमले की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि हवलदार डिप्रेन का शिकार है। उनका इलाज मानव व्यवहार और संबंध विज्ञान संस्थान (इहबास) में चल रहा है। वह पिछले 11 दिनों से छुट्टी पर है।

स का

श्रीस अपनी पूरी ताकत झोंकने को कहा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का झंडावा रहे डा. नरेश कुमार ने बताया प्रदेश कांग्रेस ने करीब 18 से 20 हजार श्र-छात्राओं का नाम सभी नेताओं को धा है। इसके अलावा पार्टी एक ऐप के श्र भी छात्रों तक पहुंचने की योजना गई। खास बात यह है कि इस ऐप को र्श ने अपने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी पेज से भी जोड़ दिया है। जैसे ही फोटो अन्य कोई मैटीरियल इसके जरिए भेजा एगा। वह सीधे कांग्रेस की आधिकारिक मुबुक पेज पर अपलोड हो जाएगा। तय माकन के मुताबिक 11 सितंबर तक ऐप का इस्तेमाल डूस् चुनाव के लिए या जाएगा। बाद में इसका प्रयोग संगठन जोड़ने और विपक्ष की भूमिका निभाने लिए होगा। डूस् चुनाव के बाद लोग ने क्षेत्र की समस्या भी इसके जरिए सकते हैं। जिसे कांग्रेस दिल्ली सरकार सामने उठाएगी।

का समाधान

करने की कार्यवाई की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

फर्जी मुन्ना भाई बनाने वाला गिरोह चढ़ा हथ्थे

गाजियाबाद। फर्जी मार्कशीट व डिग्री के जरिए एमएनसी कंपनी, गैर सरकारी संस्थानों में गलत तरीके से नौकरी लेने वालों पर जल्द ही पुलिस का डंडा चल सकता है। दरअसल

कर दिया। तोड़फोड़ के लिए लाए गए दो बुल्डोजर को भी भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर उसके पहिए की हवा निकाल दी। हंगामे और उपद्रव के कारण पूरे दिन इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रियदर्शनी विहार स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर को तोड़ने के आदेश अदालत ने दिए हैं। गत तीन सितंबर को लोगों की भारी विरोध के बीच डीडीए ने तोड़फोड़ की कार्यवाई शुरू की थी और मंदिर के सत्संग भवन को तोड़ दिया था। डीडीए की इस कार्यवाई के बाद विभिन्न हिंदू संगठन व स्थानीय नेता व लोग लामबंद होने लगे।

PUBLIC NOTICE

This is to inform public in general that Kotak Mahindra Bank Ltd. has organized an auction in below mention respect of vehicles.

VEHICLE FOR SALE

- 1) TATA T 2515G REGD. NO. HR38H4361 YOM-2003
- 2) TATA 2518 REGD. NO. HR733886 YOM-2012
- 3) ASHOK LEYLAND 2514GOODS REGD. NO. HR38N3249 YOM-2007
- 4) Tata LPO 1610/62 Container Carrie REGD. NO. HR47A4143 YOM-2006
- 5) TATA 2518 GOODS-Container Carrie REGD. NO. HR38S1593 YOM-2012
- 6) TATA 2518 GOODS-Container Carrie REGD. NO. HR38S1656 YOM-2012
- 7) TATA SFC 407 GOODS REGD. NO. HR55R7326 YOM-2012 UNDER HYPOTHECATION WITH M/S KOTAK MAHINDRA BANK IS UNDER SALE IN ITS "AS IS WHERE IS CONDITION" INTERESTED PARTIES CAN GIVE THEIR QUOTATIONS WITH IN 07 DAYS AT BRANCH ADDRESS: 3rd Floor, Plot No. 7, Sec 125, Institutional Area, Near Dell Campus, NOIDA-201 313 OR Contact: Mr. Nitesh Mathur/ Chatur Singh/Raman Joshi Kotak Mahindra Bank Ltd. Contact : +07838225565/+09811334778/+917838293620

MAURYA INDUSTRIAL RESOURCES LTD.
Regd. Off.: 808-809, E-Block, International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019
CIN:L74899DL1985PLC019988

CORRIGENDUM NOTICE TO SHAREHOLDERS

Further to Notice dated 07.09.2015 published in this newspaper edition dated 8.9.2015 for the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on Wednesday, 30th September, 2015 at 10.00 a.m. at 808-809, E-Block, International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019 to transact business as set out in the Notice dated 13.08.2015 sent to the shareholders individually at their registered address:

Further notice is given that e-voting facility has been provided for transacting the business at the aforesaid AGM to the shareholders. Members holding shares either in physical or

पर रखकर विकास मार्ग पर ट्रैफिक जाम कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने दिल्ली परिवहन निगम के बसों के शीशे तोड़ दिए। बस में सवार यात्री किसी तरह अपनी जान बचाकर उतरकर मौके से भाग गए। विकास मार्ग पर अफरा-तफरी के माहौल में लंबा जाम लग गया। बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोगकर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़

हुई। जिसके उन्होंने दस्ता वापस ले जाने का फैसला किया। इस प्रदर्शन में पूर्वी दिल्ली की उपमहापौर आशा सिंह, स्थायी समिति की अध्यक्ष लता गुप्ता, पार्षद सुशील उपाध्याय, विधायक नीतिन त्यागी, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अभय वर्मा व पवन शर्मा, मनीष गर्ग, राजेश साहनी समेत बड़ी संख्या में साधु संत और लोग शामिल हुए।

MULTIMEDIA & ENTERTAINMENT LTD

Regd. Office: 72, Regal Building, 2nd Floor, Baba Khadag Singh Marg, Connaught Place, New Delhi-110001
CIN: L74899DL1994PLC062469
Tele.No:011- 65651493, Email: multimedia_entertainment1@rediffmail.com
www.multimediaentertainmentlimited.com

NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Pursuant to section 96 and 101 of Companies Act, 2013 Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Wednesday, 30th September, 2015 at 09:30 A. M. at C-125, East of Kailash, New Delhi - 110065 to transact the businesses as contained in the Notice of the aforesaid meeting being sent to the share holders of the Company.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 is hereby given that Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be remained closed from 24.09.2015 to 30.09.2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

For Multimedia & Entertainment Limited

Place: New Delhi	Sd/-
Date: 4 th September 2015	Managing Director

ओस्वाल लीजिंग लिमिटेड

सीआईएन : एल66910डीएल1983पीएलसी0160036

पंजी. कार्यालय : 105, अशोक एस्टेट, 24, बाताखना रोड, नई दिल्ली-110001

फोन : 011-23313955, फैक्स : 011-23316374, ई-मेल : oswal_leasing@owmnahar.com

वार्षिक आम सभा, बही बंदी और ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 31^{वीं} वार्षिक आम सभा (एजीएम) बुधवार, 30 सितंबर, 2015 को पूर्वा. 11.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात् नई दिल्ली वार्डएनसीए टूरिस्ट होस्टल, 1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 में, सूचना में उल्लेखित कार्यों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा उपस्थिति परी उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी गई है, जिनकी ई-मेल आईडीज कंपनी में पंजीबद्ध हैं। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीबद्ध नहीं कराया है, उनको एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की नौतिक प्रति अनुसूचित विधि से भेजी गई है।

एतद्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की पंजीका तथा शेयर अंतरण बहियां 28 सितंबर, 2015 से 30 सितंबर, 2015 तक (दोनों दिवसों सहित) एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, में नियम 20 के साथ पठित। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के निर्देशानुसार, कंपनी एजीएम की सूचना में पंजीबद्ध कार्यों के निष्पादन हेतु सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने हेतु ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। सीडीएसएल द्वारा कंपनी को आवंटित क्रेडिटेशन (ई-वोटिंग क्रम संख्या) 150902066 है।

क्र. सं.	विवरण	कार्यक्रम
1.	विच्छेदन तिथि	23 सितंबर, 2015
2.	इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ई-वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	27 सितंबर, 2015 (पूर्वा. 9.00 बजे)
3.	इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ई-वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	29 सितंबर, 2015 (अप. 5.00 बजे)*

*उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

कोई व्यक्ति जो सूचना प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर अर्जित करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है, कंपनी से लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के बाद एजीएम में भाग ले सकता है परंतु बैठक में पुनः वोट डालने का हकदार नहीं होगा।

वह व्यक्ति जिसका नाम विच्छेदन तिथि अर्थात् 23 सितंबर को कंपनी/सीडीएसएल द्वारा अनुपस्थित सदस्यों की पंजीका में दर्ज होगा, रिपोर्ट ई-वोटिंग तथा आम सभा में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.owmnahar.com पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी शिकायत के लिए कंपनी को oswal_leasing@owmnahar.com पर और ई-वोटिंग के मामले में सीडीएसएल को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेजे

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
बसते ओस्वाल लीजिंग लिमिटेड
(हस्ता./-) विजय गुप्ता, निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 08/09/2015